

## विश्व पर्यावास दिवस, 2013 – निबंध प्रतियोगिता

वर्ष 2013 में विश्व पर्यावास दिवस समारोह के एक हिस्से के तौर पर, राष्ट्रीय आवास बैंक विश्व पर्यावास दिवस 2013 के विषय अर्थात् “शहरी गतिशीलता” को ध्यान में रखकर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। निबंध प्रतियोगिता के विषय हैं:

- क.) सभी हेतु आवास के लिये धारणीय शहरीकरण।
- ख.) स्वस्थ तथा धारणीय शहरी वातावरण हेतु हरित शहरों और निपुण सुलभ परिवहन प्रणाली सहित शहरी गतिशीलता योजनाएं।
- ग.) आवास विकल्प और शहरी प्रवासियों की गतिशीलता।
- घ.) धारणीय गतिशीलता एवं नगर: नीति से प्रौद्योगिकी का संयोजन।

प्रतिभागी कोई एक विषय चुन सकते हैं। निबंध अंग्रेज़ी अथवा हिंदी में और अधिकतम 5000 शब्दों में होना चाहिये।

### **पात्रता:**

केवल आवास वित्त कंपनियों(एचएफसी), बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिये यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है।

### **प्रविष्टियां**

प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2014 है। ए-4 आकार के पेपर में निबंध की तीन प्रतियां (एक मूल प्रति और दो फोटो प्रतियां) एक लिफाफे में “विश्व पर्यावास दिवस, 2013 – निबंध प्रतियोगिता” शीर्षकित करके निम्नलिखित पते पर भेजें:

**श्री विशाल गोयल**  
**सहायक महाप्रबंधक**  
**राष्ट्रीय आवास बैंक**  
**कोर-5ए, चतुर्थ तल,**  
**भारत पर्यावास केंद्र,**  
**लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003**

वैकल्पिक तौर पर, निबंधों की सॉफ्ट प्रतियां रा.आ.बैंक को एक अनुलग्नक के तौर पर [meghnap@nhb.org.in](mailto:meghnap@nhb.org.in), [sukritiw@nhb.org.in](mailto:sukritiw@nhb.org.in) और [bimalr@nhb.org.in](mailto:bimalr@nhb.org.in) पर ईमेल की जा सकती हैं। ईमेल की विषय लाइन में “विश्व पर्यावास दिवस, 2013 – निबंध प्रतियोगिता” उल्लिखित होना चाहिये।

**टिप्पणी:** ईमेल से भेजी गई प्रविष्टियों के मामले में, अनुलग्नक का आकार अधिकतम 1000 केबी होना चाहिये।

**पुरस्कार:**

प्रथम पुरस्कार	20,000/-रू.
द्वितीय पुरस्कार	15,000/-रू.
तृतीय पुरस्कार	10,000/-रू.
सांत्वना पुरस्कार(3)	5,000/-रू. प्रत्येक

इसके अतिरिक्त, विजेताओं को प्रमाणपत्र दिये जाएंगे और अगले विश्व पर्यावास दिवस समारोह के दौरान प्रकाशित करने के लिये रा.आ.बैंक अपने वार्षिक प्रकाशन नाम हैबिटमेंट: "आवास एवं पर्यावास" – चयनित निबंध में पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों को समाविष्ट करेगा।

**अन्य नियम और शर्तें:**

- प्रविष्टि मूल होनी चाहिये और पहले प्रकाशित नहीं हुई हो। इस संबंध में प्रतियोगी को प्रविष्टि के साथ एक हस्ताक्षरित उद्घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
- निबंध के लिये निर्धारित शब्द सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित विश्व पर्यावास दिवस निबंध प्रतियोगिता के विजेता इस प्रतियोगिता में आवेदन करने के लिये पात्र नहीं हैं।
- अन्य स्रोतों से सभी संदर्भ और सामग्रियों को विधिवत् रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये।
- प्रतिभागी प्रविष्टि के किसी भी पृष्ठ पर अपने नाम नहीं लिखेंगे अथवा हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
- प्रतिभागी प्रविष्टि के सह-पत्र पर अपना पूरा डाक-पता, संपर्क संख्या तथा ईमेल आईडी सहित उल्लिखित करें।
- प्रविष्टियों की जांच राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियुक्त जजों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा की जाएगी। जजों का निर्णय अंतिम होगा।
- एक अथवा अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से निबंध प्रस्तुत किया जा सकता है।

**परिणामों की घोषणा:**

राष्ट्रीय आवास बैंक पुरस्कार विजेताओं को व्यक्तिगत तौर पर और उनके संस्थानों के माध्यम से सूचित करेगा। पुरस्कारों का वितरण वर्ष 2014 में विश्व पर्यावास दिवस समारोह के दौरान किया जाएगा। समारोह स्थल पर सभी बाहरी विजेताओं को अपने पुरस्कार व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त करने के लिये उन्हें टीए का भुगतान किया जाएगा।